



HAMIRPUR POLICE



कोतवाली सदर

दिनांक 07.12.2022

हत्या की घटना का 06 घण्टे में खुलासा, हत्या कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 07.12.2022 को थाना कोतवाली सदर हमीरपुर क्षेत्र में बोरी में मिले शव की शिनाख्त की गई तो मृतक का नाम बउआ उर्फ अखिलेश सिंह पुत्र अवध नरेश सिंह उर्फ घरसू सिंह निवासी टेढ़ा थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर (उम्र 40 वर्ष) ज्ञात हुआ है। शव को कब्जे में लेकर पंचायत नामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। जाँचोपरांत सीसीटीवी कैमरे से शव को फेंकने वाले अभियुक्तों की पहचान की गई तो एक का नाम सुनील कुमार तिवारी उर्फ सुनील बंसल पुत्र स्वर्गीय वंशीधर तिवारी निवासी किंग रोड ग्वालटोली थाना कोतवाली सदर हमीरपुर (उम्र लगभग 38 वर्ष) तथा दूसरे का नाम जमुना प्रसाद सविता पुत्र स्वर्गीय परमलाल सविता निवासी बंगाली मोहाल रमेडी थाना कोतवाली सदर हमीरपुर (उम्र 42 वर्ष) प्रकाश में आया, पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण व मृतक एक दूसरे से पूर्व से परिचित थे तथा शराब पीने के आदी थे तथा शराब पीने के दौरान झगड़ा हुआ और इसी दौरान झगड़े में अभियुक्तगणों द्वारा बउआ उर्फ अखिलेश सिंह को मारकर बोरी में बांधकर फेंका गया था, मृतक और अभियुक्त दोनों का पूर्व का अपराधिक इतिहास होने की बात की भी पुष्टि हुई है, मृतक के विरुद्ध पूर्व में कुल 13 मुकदमे व अभियुक्त सुनील के विरुद्ध गंभीर धाराओं में कुल 10 मुकदमे पंजीकृत हैं। उपरोक्त प्रकरण में कोतवाली सदर पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा-302,201 IPC में अभियोग पंजीकृत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 01) सुनील कुमार तिवारी उर्फ सुनील बंसल पुत्र स्वर्गीय वंशीधर तिवारी निवासी किंग रोड ग्वालटोली थाना कोतवाली सदर हमीरपुर
- 02) जमुना प्रसाद सविता पुत्र स्वर्गीय परमलाल सविता निवासी बंगाली मोहाल रमेडी थाना कोतवाली सदर हमीरपुर

